


समय आने

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2523]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 31, 2013/कार्तिक 9, 1935

No. 2523]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2013/KARTIKA 9, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(वक्फ प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2013

का.आ. 3292(अ).— केंद्रीय सरकार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की सं० 27) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नवम्बर, 2013 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रभाव में आएंगे।

[फा. सं. 12/1/2012-वक्फ (वोल्यू. IV)]

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(WAKF DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2013

S.O. 3292(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Wakf (Amendment) Act, 2013 (No. 27 of 2013), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2013 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 12/1/2012-Wakf (Vol. IV)]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.